



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 117]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2001/फाल्गुन 7, 1922

No. 117]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2001/PHALGUNA 7, 1922

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2001

**का.आ. 161 (अ).—**केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद-वडोदरा खंड के 33/430 से 42/180 कि. मी. तक पर वक्त्रक पुल और इसके पहुंच मार्गों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और उन्हें चालू रखने में अन्तर्वलित व्यय, विनिहित पूंजी पर ब्याज, विनिहित पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा तथा मैसर्स लार्सन एंड दुब्रो लिमिटेड, ई सी सी कंस्ट्रक्शन ग्रुप, वक्त्रक पुल स्थल, खेड़ा-387570, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बेल्लार्ड इस्टेट, मुम्बई में है, के साथ हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर ग्राम खेड़ा के निकट वक्त्रक नदी पर विद्यमान और नए पुलों के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर, फीस उद्गृहीत और संदत्त की जाएगी तथा उक्त मैसर्स लार्सन एंड दुब्रो लि. ई सी सी कंस्ट्रक्शन ग्रुप, वक्त्रक स्थल खेड़ा-387570 या उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को 27 फरवरी, 2001 से 31 दिसम्बर, 2009 तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

### अनुसूची

(राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अहमदाबाद-वडोदरा खंड के 33/430 से 42/180 कि. मी. तक ग्राम खेड़ा के निकट वक्त्रक नदी पर विद्यमान और नए पुलों के उपयोगकर्ता से वसूल की जाने वाली फीस की दरें)

क्रम सं.	यान की विशिष्टियां	फीस की दर प्रतियान प्रति ट्रिप रुपयों में (पथकर प्लाजा एक बार पार करने के लिए)
1	2	1
1.	मोटर साइकिल, स्कूटर या यांत्रिकी रूप से नोदन करने वाला कोई अन्य दोपहिया यान	शून्य
2.	मोटरकार, टैक्सी, जीप, आटोरिक्षा, तिपहिया	10-00
3.	हल्के वाणिज्यिक यान, ट्राली के साथ या ट्राली रहित टैक्टर चाहे लदे हों या न लदे हों	20-00
4.	बस, ट्रक और अन्य भारी यान जिसमें ट्रक-ट्रेलर पयोजन माल/यात्रियों से लदा हुआ, भी सम्मिलित है, चाहे लदा हो या न लदा हो।	35-00
5.	भारी सन्निर्माण मशीनरी, ऐसे अन्य मशीनरी से नोदन करने वाले यान जो ऊपर वर्णित नहीं हैं जैसे मोबाइल क्रेन, अर्थमूवर्स, रोड रोलर आदि चाहे लदे हों या न लदे हों।	75-00

**टिप्पण :**

1. निम्नलिखित प्रकार के यानों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस से छूट प्राप्त है और उद्यमी उन्हें सुविधा का निःशुल्क उपयोग करने के लिए अनुज्ञात करेगा, अर्थात् :—

- (i) रक्षा यान
- (ii) अतिविशिष्ट व्यक्ति प्रतीक सहित यान
- (iii) पुलिस यान
- (iv) अग्नि शमन यान
- (v) एम्बुलेंस
- (vi) शव वाहन
- (vii) डाक और तार विभाग यान, और
- (viii) केन्द्रीय और राज्य सरकार के यान

2. निम्नलिखित से संबंधित शासकीय यान अति विशिष्ट व्यक्ति प्रतीक युक्त यान समझे जाएंगे, अर्थात् :—

- (i) भारत के राष्ट्रपति,
- (ii) भारत के उप राष्ट्रपति,
- (iii) राज्य के राज्यपाल,
- (iv) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मंत्री,
- (v) लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं में विपक्ष के नेता,
- (vi) भारत में राजकीय दौरों पर विदेशी उच्चपदस्थ,
- (vii) सी डी चिन्ह वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में तैनात विदेशी राजनयिक।

3. उपरिवर्णित दरें, पुल/पहुंचमार्गों के आस-पास खड़े किए गए बोर्डों पर अंग्रेजी, हिन्दी और गुजराती भाषा में प्रदर्शित की जाएंगी जिससे कि चालक की सीट से पढ़ी जा सकें। इस अधिसूचना के अधीन फीस की वसूली के प्रत्येक अवसर पर उक्त मैसर्स लार्सन एंड दुब्रो या इसका विधिक प्राधिकृत प्रतिनिधि संदायकर्ता को रसीद जारी करेगा।

[सं. आर डब्ल्यू/एन एच-12014/1/97-डब्ल्यू जी जे]

एस. सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 2001

**S.O. 161(E).—** In exercise of powers conferred by section 8 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of Watrak Bridge and its approach roads on NH-8 from km. 33/430 to km. 42/180 of Ahmedabad-Vadodara section, interest on the capital invested, reasonable returns on the capital invested, the volume of traffic and the period of the agreement entered into with M/s. Larsen & Toubro Ltd. ECC Construction Group, Watrak Bridge Site, Kheda-387 570 having its registered office at Ballard Estate, Mumbai, hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles, for the use of the existing and new bridges across river Watrak near village Kheda, at the rates specified in Schedule given below and authorises the said M/s. Larsen & Toubro Ltd. ECC Construction Group, Watrak

Bridge Site, Kheda-387 570, or its authorised legal representative to collect and retain fees at the rates specified in the said Schedule from 27<sup>th</sup> February, 2001 to 31<sup>st</sup> December, 2009.

#### SCHEDULE

(Fee rates to be recovered from users of existing and the new bridges across river Watrak near village Kheda on NH 8 from km 33/430 to 42/180 of Ahmedabad-Vadodara section)

Sl.No.	Particulars of Vehicles	Fee Rates in Rs per vehicle Per trip(single crossing of toll plaza)
(1)	(2)	(3)
1.	Motor cycle, Scooter or any other two-wheeled mechanically propelled vehicles	Nil
2.	Motorcar, taxi, jeep, auto rickshaws, three wheeler.	10.00
3.	Light commercial vehicle Tractor with or without trolley loaded or unloaded	20.00
4.	Bus, truck and other heavy vehicles including truck trailer combination-laden with goods/ passengers loaded or unloaded	35.00
5.	Heavy construction mechinaries, Other machinery propelled vehicles not mentioned above like mobile cranes, earthmovers, road roller etc. loaded or unloaded.	75.00

#### Notes :—

1. Following types of vehicles are exempted from the fee specified in the Schedule and the entrepreneur shall allow them to use the facility freely; namely:-
  - (i) Defence vehicles;
  - (ii) Vehicles with VIP symbols;
  - (iii) Police vehicles;
  - (iv) Fire Fighting vehicles ;
  - (v) Ambulances .
  - (vi) Funeral vans;
  - (vii) Post and Telegraphs Department vehicles; and

(viii) Central and State Government vehicles.

2. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having VIP symbols ; namely :

- (i) President of India ;
- (ii) Vice-President of India ;
- (iii) Governor of State;
- (iv) Central and State Minister ;
- (v) Leader of Opposition in Lok Sabha/Rajya Sabha / State Legislatures;
- (vi) Foreign Dignitaries on State visit to India ;
- (vii) Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD symbols.

3. The above mentioned rates shall be displayed in English, Hindi and Gujarati languages on board/s erected in the vicinity of the bridge/approach roads so as to be readable from driver's seat. The said M/s. Larsen & Toubro, or its authorised legal representative shall issue a receipt to the payer on each and every occasion of recovery of fee under this notification.

[No. RW/NH-12014/1/97-WGJ]

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.